

सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank

प्र.का. मणिपाल/HO: MANIPAL

कृषि उधार हेतु आवेदन पत्र APPLICATION FOR AGRICULTURAL CREDIT

अल्पावधि/मध्यावधि/दीर्घावधि मीयादी ऋण
Short Term/Medium/Long Term Loans

आवेदक का फोटो/
Photo of the
Applicant

मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक
The Chief/Sr./Branch Manager
सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank

केवल बैंक के उपयोग के लिए/For Bank use only

..... शाखा/Branch

फाईल सं./File No.:	
ऋण खाता सं./Loan A/c No.:	
ब.बैं. खाता सं./S.B. A/c No.:	
प्राप्त आ.प. की पंजी सं./Application Received Registration No.	
सेवा क्षेत्र ग्राम का नाम/Service Area Village Name:	
सेवा क्षेत्र ग्राम कूट/Service Area Village Code:	

मैं/हम एतद्वारा कुल रु. रूपए)
के ऋण हेतु आवेदन करता/करती हूँ/करते हैं और आवश्यक ब्यौरे नीचे प्रस्तुत है.

I/We hereby apply for a loan of Rs. (Rupees
..... only) and furnish below the necessary particulars.

1. आवेदक /को का/के नाम व पता:

Applicant/s Name and Address:

नाम, उपनाम सहित Name with Surname 1	आयु Age 2	पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name 3	व्यवसाय Occupation 4
i)			
ii)			
iii)			
iv)			

मकान सं. Door No. 5	गाँव Village 6	डाक घर Post 7	पिन कोड Pin Code 8	तालुका Taluk 9	जिला District 10
i)					
ii)					
iii)					
iv)					

II. परिवार के सदस्यों के ब्यौरे/Particulars of the Family members

नाम/Name	संबंध Relationship	क्या आश्रित है/है Whether Dependent	वार्षिक आय (रु.) Annual Income (Rs.)
i)		हाँ Yes/ नहीं No	
ii)		हाँ Yes/ नहीं No	
iii)		हाँ Yes/ नहीं No	
iv)		हाँ Yes/ नहीं No	

IX. निजी कृषि उपकरणों/पशुधन/अचल संपत्तियों के ब्यौरे/Particulars of farm equipments/live stock/immovable assets owned

ब्यौरे/Particulars	संख्या No.	विवरण/Description	वर्तमान मूल्य (₹.) Present Value (Rs.)
चल संपत्ति/Moveables			
a) जुताई करनेवाला पशु/Plough Cattle			
b) दुधारु पशु/Milch Cattle			
c) पालतु मुर्गियां/Poultry Birds			
d) ऑयल इंजिन/इलेक्ट्रिक मोटर /पंपसेट/ Oil Engine/Elec.Motor/Pumpsets			
e) पावर टिलर/Power Tiller			
f) ट्रैक्टर/संयुक्त हार्वेस्टर/ Tractors/Combine harvester			
g) परिवहन वाहन/Transport Vehicles			
h) अन्य उपकरण/Other Implements			
अचल संपत्ति/Immoveable			
a) आवास/भवन/House/Building			
b) ट्रैक्टर शेड/Tractor Shed			
c) पशु/कृषि शेड/Cattle/Farm Shed			
d) गोदाम/Godown			
e) फिशिंग पॉण्ड/टैंक/Fishing Ponds/ Tank			
f) अन्य (उल्लेख करें)/Others (specify)			

X. प्रस्तावित प्रतिभूति/Security Proposed to be offered:

प्रतिभूति का प्रकार (प्राथमिक/संपार्श्विक) Type of Security (Primary/Collateral)	विवरण/Description*	वर्तमान बाजार मूल्य Present Market Value (₹./Rs.)

* भूमि, भवन, वाहन/मशीन/रा.ब.प्र./जी.बी.नि. पालिसी/आभूषण/जमाराशियों का उल्लेख करें (पूर्ण ब्यौरे दें).
Mention whether Lands/Buildings/Vehicle/ Machinery/NSC/LIC Policy/Jewellery, Deposits (Furnish full details).

XI. घोषणा/Declaration:

- क) मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ /करते हैं कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के साथ, दिए गए उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं।
a) I/We hereby declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
- ख) मैं/हम एतद्वारा बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं कि वह बैंक के पास मेरे/हमारे ऋण खाते से संबंधित सभी अथवा कोई विवरण अथवा ब्यौरा अथवा जानकारी किसी अन्य वित्तीय संस्था, सरकार अथवा अन्य एजेंसी (सियों) को दे सकता है जैसा वह आवश्यक अथवा वांछनीय समझे।
b) I/We hereby authorise the Bank to disclose all/or any particulars/details of information relating to my/our loan A/c with the Bank to any other Financial Institution/Government or any agency(ies) as may be considered necessary or desirable by the Bank.
- ग) बैंक मुझे/हमें बैंक से कोई ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अयोग्य कर सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा की गई बाहरी उधार संबंधी घोषणा में तथ्यों का दुरुव्यपदेशन किया गया हो।
c) It will be in order for the Bank to disqualify me/us from receiving any credit facilities from the Bank in case it is proved that the declarations of my/our outside borrowings made above contain misrepresentation of facts.

- घ) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन की तारीख को उक्त मद VIII में उल्लिखित के अतिरिक्त मेरे/हमारे ऊपर कोई अन्य उधार/देयता शेष नहीं है।
- d) I/We hereby declare that I/we have no borrowings from any other agency on the date of application other than those mentioned under Point No. VIII.
- ङ) मैं/हम वचन देता हूँ/देती हैं कि मैं/हम बैंक की अनुमति के बिना किसी अन्य एजेंसी से उधार प्राप्त नहीं करूँगी/करेंगे।
- e) I/We undertake not to borrow from any other agency without the permission of the Bank.
- च) क्या आवेदक/सहबाध्यताधारी/गारंटर बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का/के रिश्तेदार है/हैं: हाँ/नहीं
यदि हाँ तो, अधिकारी का नाम, पदनाम और शाखा/कार्यालय और रिश्तेदारी के स्वरूप का उल्लेख करें।
नाम..... रिश्तेदारी
- f) Whether the Applicant/s, Co-obligant/s, Guarantor/s is/are related to any Senior Officer of the Bank: Yes/No.
If yes, specify the names of the officer with designation and the branch/office working and the nature of the relationship.
Name Relationship
- छ) मैं/हम, निम्नलिखित के संबंध में तत्काल सूचना देने का वचन देता हूँ /देते हैं।
- g) I/We undertake to initiate to you immediately.
- i) यदि मैं/हम/साझेदार/सह-बाध्यताधारी/गारंटर, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पदग्रहण करता हूँ/करती हूँ /करते हैं/पदोन्नत होता/होती हूँ /होते हैं और/या/If I/We Partners/Co-obligants/Guarantors join/promoted as Senior Officer of the Bank and/or
- ii) बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का कोई रिश्तेदार फर्म के साझेदार/सहबाध्यताधारी/गारंटर के रूप में ऋण संव्यवहार में शामिल होता है।
Any relative as the Senior Officer of the Bank joins as partner of the firm/co-obligant/guarantor to the loan transaction.
- ज) हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी सत्य है, कि मेरी/हमारी अन्य बैंक के पास इस इकाई की बाबत कोई उधार व्यवस्था नहीं कि मेरे/हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी/नहीं की जा रही है, कि मैं/हम ऐसी सभी जानकारी आपको प्रस्तुत करूँगा/करूँगी/करेंगे जो मेरे/हमारे आवेदन-पत्र के संबंध में आपके द्वारा मांगी जाएगी, कि इस जानकारी आप किसी भी एजेंसी के साथ जिसे आप उचित समझे आदान-प्रदान कर सकते हैं और यह कि आप आपके प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि या आपके द्वारा यथा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, किसी भी समय, हमारे फार्म/फैक्टरी और या कारोबार परिसर में स्थित आस्तियों, लेखा बहियों का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं।
- h) We certify that all the information furnished by me/us is true; that I/we have no borrowing arrangements for the unit with any Bank other than the facts mentioned under VIII above; that no legal action has been/is being taken against me/us; that I/we shall furnish all the information that may be required by you in connection with my/our application; that this may also be exchanged by you with any agency you may deem fit, and that you, your representatives, representative of Reserve Bank of India or any other agency as authorised by you, at any time, inspect/verify our assets, books of accounts, etc., in our farm, factory and/or business premises.
- झ) मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता/देती हूँ /देते हैं कि मैं/हम उक्त ऋण मंजूर करते समय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का पालन करूँगा/ करूँगी/ करेंगे और अग्रिम प्रचलित रहने की अवधि के दौरान यदि मेरे/हमारे द्वारा किन्हीं अन्य आस्तियों का अभिग्रहण किया गया तो मैं/हम तत्काल बैंक को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- i) I/We hereby undertake to abide by the terms and conditions that the Bank may stipulate in sanction of this loan and inform Bank in the event of acquiring any other assets during the tenure of the advance.

स्थान/Place:
दिनांक/Date:

आवेदक/कों के हस्ताक्षर/Signature of Applicant/s

सहबाध्यताधारी/गारंटीकर्ता/ओं के ब्यौरे
Details of Co-obligants/Guarantor/s

I. पता/Address

क्रम सं. Sl. No.	नाम उपनाम सहित Name with Surname	आयु Age	पिता का नाम Father's Name	व्यवसाय Occupation	पूरा पता, गाँव का नाम/ डाक घर/ तालुक/जिला/पिन कोड सहित Full Address with Name of Village/P.O./Tq./Dist./Pin Code

II. निजी आस्तियाँ /Assets Owned

(रकम रुपए में / Amount in Rs.)

ब्यौरे Details	स्थान (मैकान सं., सर्वे सं. आदि का उल्लेख करें) Location (Specify Door No., Sy. No. etc.)	खरीद मूल्य Purchase Price (₹./Rs.)	वर्तमान बाजार मूल्य Present Market Value (₹./Rs.)	वार्षिक आय Annual Income (₹./Rs.)

III. देयताएँ (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों)/Liabilities (both direct and indirect)

(रकम रुपए में / Amount in Rs.)

उधारदाता Borrowed from	प्रयोजन Purpose	ली गयी रकम Amount availed	वर्तमान देयता Present Liability	अतिदेय राशि Amount Overdue	प्रतिभूती Security	उधारकर्ता का नाम परोक्ष देयता के मामले में Name of the Borrower in case of indirect liability

IV. सहबाध्यताधारी/गारंटीकर्ता की शुद्ध मालियत/Networth of Co-obligant/Guarantor [II-III] ₹./Rs.

मैं/हम उपर्युक्त आवेदक/कों को मंजूर की जानेवाली उधार सुविधाओं के लिए सहबाध्यताधारी/गारंटीकर्ता/ओं के रूप में प्रस्तुत हूँ/हैं.

I/We offer to stand as Co-obligant/Guarantor/s for the credit facilities to be extended to the above mentioned applicant/s.

स्थान/Place :

सहबाध्यताधारी/गारंटीकर्ता/ओं के हस्ताक्षर

दिनांक/Date :

Signature of Co-obligant/Guarantor/s

शाखाओं के उपयोगार्थ/USE AT THE BRANCHES

हमने श्री/श्रीमती द्वारा प्रस्तुत संपत्तियों और देयताओं के ब्यौरे का सत्यापन किया और हम उसकी विशुद्धता को पुष्टि करते हैं। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर पार्टी की संपत्तियों और देयताओं और निवल संपत्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

I/We have verified the particulars of Assets and Liabilities furnished by Shri/Smt. and confirm its correctness. Based on the above information the Assets and Liabilities and Net Worth of the party are as under :

1) कुल संपत्ति/Total Assets

2) कुल देयताएँ/Total Liabilities

क/a) प्रत्यक्ष देयताएँ/Direct Liabilities :

बैंक उधार/Bank Borrowing

अन्य उधार/Other Borrowing

ख/b) परोक्ष देयताएँ/Indirect Liabilities:

सह-बाध्यताधारी/गारंटीकर्ता के रूप में/as Co-Obl./Guarantor

3) शुद्ध मालियत/Net Worth

तारीख/Date:

सहायक प्रबंधक/Asst. Manager

प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/Manager/Chief Manager

पावती
ACKNOWLEDGEMENT

श्री/श्रीमती निवासी

ग्राम, से दि. को

..... प्रयोजन के लिए ऋण संबंधी आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ।

Received the Loan Application From Sri/Smt.

R/o Village on for the

purpose of

कृते सिंडिकेटबैंक/For SyndicateBank

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक/Chief/Sr./Branch Manager